

DATE	EXAM	STD	SUBJECT	MARKS
25/02/2022	2-PRELIM EXAM	X	COMP-HINDI	50

( गद्य -विभाग)

**प्रश्न-१ला -अ)निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। (५)**

खोए हुए आदमी की आवाज बहुत मधुर थी। कभी-कभी वह अपनी सुरीली आवाज में कोई पुराना गीत गाता था। उस गाँव की गाय-भैसे उसके गीत की स्वर-लहरियों से मंत्रमुग्ध होकर ज्यादा दूध देने लगती। गाँव के बच्चों उसका गीत सुनकर उसकी ओर खिंचे चले आते।

- १) खोए हुए आदमी की आवाज ----- (१)
- २) मंत्रमुग्ध होकर दूध देने वाली ----- (१)
- ३) विरुधार्थी शब्द लिखिए। १) पुराना (१)
- ४) वचन बदलकर लिखिए। १) आदमी- (१)
- ५) कभी-कभी वह अपनी में कोई पुराना ----- गाता था। (१)

**प्रश्न-१ला -ब)निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। (५)**

एक बार सेठ की पत्नी बहुत बीमार होगई। दुनिया भर के इलाज कराए गए, वैद्य-डाक्टर बुलाए, लेकिन सेठानी की तबीयत ठीक ही नहीं हुई। उसे लगता था की वह अब नहीं बचेगी। मित्रों-शुभचिंतकों ने सलाह दी की एक बार उस साधु को दिखा देने में क्या हानि है। हारकर सेठ तैयार हो गया।

- १) एक बार सेठ की पत्नी बीमार हो गई। (यह विधान सही है या गलत) (१)

- २) लिंग पहचानो। १) सेठानी- (१)
- ३) दुनिया भर के इलाज कराए गए ----- बुलाए। (१)
- ४) समानार्थी शब्द लिखिए। १) मित्र - (१)
- ५) सलाह देनेवाले----- (१)

**प्रश्न-१ला -क)निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। (५)**

नहीं महाराज, मैं देखकर चलता हूँ तभी तो ढलान की तरफ जाता हूँ। कभी ऊँची जगह पर चढ़ने की कोशिश नहीं करता हूँ। ये लोग जानते हैं कि इनके गाँव के पास एक पहाड़ है। पहले उसपर बहुत से वृक्ष होते थे। पहाड़ से उतरते समय मैं वृक्षों के बीच में से होकर धीरे-धीरे आता था और सीधे पानी के रास्ते यानी नदी, नाले में बहता था। अब लोगो ने पहाड़ के वृक्ष साफ़ कर दिए हैं।

- १) इस पर वृक्ष थे ----- (१)
- २) पानी वृक्षों के बीच में से होकर धीरे-धीरे आता था। (अव्यय शब्द पहचानो) (१)
- ३) कभी ऊँची जगह पर चढ़ने की ----- नहीं करता हूँ। (१)
- ४) समानार्थी शब्द लिखिए। १) जल - (१)
- ५) वचन बदलकर लिखिए। १) पहाड़- (१)

## (पद्य विभाग)

प्रश्न-२ रा -अ)निम्नलिखित पठित पद्याश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। (५)

मस्त पवन ने अब खोली है अपनी झोली ,  
सोंधी -सोंधी -सी सुगंध ,माटीसे बोली  
सागर का जो था मंसूबा सफल हो गया ,  
खुशियों की दुनिया में आकर स्वयं खो गया ।  
धरती ने श्रुंगार किया ,फिर माथे रोली ,  
सोंधी -सोंधी -सी सुगंध ,माटी से बोली ।

- १)इसने झोली खोली है -----  (१)
- २)इसका मंसूबा सफल हुआ -----  (१)
- ३)इसने श्रुंगार किया है -----  (१)
- ४)विरुधार्थी शब्द लिखिए । १) सफल  (१)
- ५) खोली---झोली----बोली-----  (१)

प्रश्न-२ रा- ब)निम्नलिखित पठित पद्याश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। (५)

गरजे मेघ  
सहमकर काँपी  
कच्ची दीवार ।  
रवि चढ़ाए  
निर्मल किरणों से  
धरा को अघर्या ।  
आ के पसरी  
थकी हारी किरण  
धरा की गोद ।  
खुली आखों ने  
जीवन भर देखे  
बंद सपने ।

- १)सहमकरकापने वाली -----  (१)
- २)किरण की स्थिती -----  (१)
- ३)इन्होंने देखे सपने -----  (१)
- ४)समानार्थी शब्द लिखिए ।  
१)रवि -  (१)
- ५)वचन पहचानकर लिखिए।  
१)दीवार -  (१)

प्रश्न-२ रा-क)निम्नलिखित पठित पद्याश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। (५)

नीलाबर परिधान हरित पट पर सुंदर है ,  
सूर्य -चंद्र युग मुकुट ,मेखला रत्नाकर है ।  
नदियाँ प्रेम प्रवाह ,फूल तारे मंडल है ,  
बंदीजन खग वृंद ,शेष फन सिंहासन है ।  
करते अभिषेक पयोद है ,बलिहारी इस देश की ।  
हे मातृभूमि, तू सत्य ही ,सगुण मूर्ति सर्वेश की ॥

- १)यह प्राकृतिक संपदा है -----  (१)
- २)बहुवचन लिखिए । १) तारा -  (१)
- ३)यह मेखला है -----  (१)
- ४)भारतमाता का अभिषेक करनेवाला ----  (१)
- ५)विरुधार्थी शब्द लिखिए । १)सत्य  (१)

### (व्याकरण -विभाग)

- प्रश्न-३ रा -१) मानक वर्तनी के अनुसार उचित शब्द चुनकर लिखिए। (१)  
अ) सिरदर्द / सिरदरद/ सीरदरद/ सीरदर्द
- २) निम्नलिखित शब्द का संधि विच्छेद लिखिए। अ) नीरस (१)
- ३) मुहावरे का उचित अर्थ लिखिए। अ) कान के परदे फाड़ना। (१)
- ४) कालभेद पहचानिए। अ) एक दिन एक आदमी ने तो कमाल कर दिया था। (१)
- ५) काल परिवर्तन कीजिए। अ) कल क्या खाया था? (सामान्य भविष्य काल) (१)
- ६) वाक्य भेद पहचानिए। अ) मुझे काम नहीं चाहिए। (१)
- ७) वाक्य परिवर्तन कीजिए। अ) तुम आओगे। (निषेधवाचक वाक्य) (१)
- ८) विशेषण पहचानिए। अ) चौबीस (१)
- ९) अव्यय भेद पहचानिए। अ) ओह ! (१)
- १०) सहायक क्रिया पहचानकर लिखिए। अ) मेरी टांग टूट गई। (१)
- ११) प्रथम प्रेरणार्थक रूप लिखिए। अ) लड़ना (१)
- १२) विरामचिह्न का नाम लिखिए। अ) (,) (१)
- १३) अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। अ) जो दिखाई न दे (१)
- १४) उपसर्ग पहचानिए। अ) नासमझ (१)
- १५) प्रत्यय पहचानिए। अ) शानदार- (१)

### (लेखन -विभाग)

- किसी एक विषय पर विज्ञापन तैयार कीजिए। (५)
- १) किसी एक घड़ी का विज्ञापन तैयार कीजिए। अथवा २) साड़ियों का विज्ञापन तैयार कीजिए।